

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3006]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3006]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4112(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, धारा (ii) दिनांक 30 सितम्बर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) संख्या का.आ. 2557(अ), 30 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में;

- (i) गांव के नाम (कॉलम संख्या 7) के तहत क्रं.सं.1 जिला "दार्जिलिंग", ब्लॉक "खोरबारी", पुलिस स्टेशन "खोरीबारी" के सामने "गंडागोल" (जे.एल. सं.3) को " मदन, 01" के रूप में पढ़ा जाए एवं
- (ii) गांव के नाम (कॉलम संख्या 7) के तहत क्रं.सं.1 जिला "दार्जिलिंग" ब्लॉक "खोरबारी", पुलिस स्टेशन "खोरीबारी" के सामने "रामदीन जे.एल. सं.2) को " उत्तर रामधन, 02" के रूप में पढ़ा जाए

नोट: अन्य सभी प्रविष्टियां अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/सिक्किम/एनएच-327बी/मेची ब्रिज/एलए/2016-17]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2016

S.O. 4112(E).—In the exercise of the powers conferred by the clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways **S.O. No. 2557(E) dated 30th September 2014** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sub-section (ii), dated **30th September, 2014** namely.

In the schedule to the said Notification

- (i) Against Serial No. 1, District “Darjeeling”, Block “Khoribari”, Police Station “Khoribari”, under the Name of the Village (Column No. 7) for “**Gandagol (J.L. No. 3)**” read “**Madan, 01**”
and
- (ii) Against Serial No. 1, District “Darjeeling”, Block “Khoribari”, Police Station “Khoribari”, under the Name of the Village (Column No. 7) for “**Ramdin (J.L. No. 2)**” read “**Uttar Ramdhan, 02**”

Note:—All other entries remain unchanged

[F. No. NHIDCL/Sikkim/NH-327B/Mechi Bridge/LA/2016-17]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.